



RANA SUGARS LIMITED

REGD. OFFICE: SCO 49-50, SECTOR 8-C, MADHYA MARG CHANDIGARH- 160 009 (INDIA)
CIN: L15322CH1991PLC011537, Website: www.ranasugars.com, E-mail: info@ranagroup.com
TEL.: 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422, FAX: 0172-2546809

RSL/23-24/CS

February 15, 2024

To,

Department of Corporate Services (DCS)
The BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001.

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400051.

Ref: Scrip Code: 507490,

Company Symbol: RANASUG

Sub: Newspaper advertisement for Unaudited financial results for quarter and Nine Months ended 31st December, 2023

Ref: Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement for the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and Nine Months ended 31st December, 2023, published in the following newspapers:

1. Business Standard (English) all editions – 15th February, 2024
2. Business Standard (Hindi) Chandigarh edition – 15th February, 2024

You are requested to kindly take the above on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
For RANA SUGARS LIMITED

Company Secretary

Encl.: As above

EIH Limited

A MEMBER OF THE OBEROI GROUP

Registered Office: N-806-A, 8th Floor, Diamond Heritage Building, 16, Strand Road, Fairley Place, Kolkata - 700001, West Bengal
Telephone: 91-33-22486751

Corporate Office: 7, Sham Nath Marg, Delhi - 110054
Telephone: 91-11-2389 0505

Website: www.eihltd.com, Email: isdho@oberoigroup.com
CIN: L55101WB1949PLC017981

POSTAL BALLOT NOTICE

The members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020; 17/2020 dated 13th April 2020 and 09/2023 dated 25th September 2023 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the EIH Limited ("the Company") is seeking your approval on the Special Business as mentioned in the Notice of the Postal Ballot dated 06th February 2024 by way of remote e-voting process.

The Postal Ballot Notice along with explanatory statement ("Notice") was dispatched on Wednesday, 14th February 2024 through electronic mode to those members whose name appear in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners provided by the Depositories as on the cut-off date i.e., Friday, 09th February 2024 on their E-mail IDs registered with the Company or with the Depositories. Copy of the Notice is also available on the website of the Company, BSE, NSE and CDSL viz. <https://www.eihltd.com/investors/disclosure/>, www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.evotingindia.com. Pursuant to MCA circulars requirement of sending the physical copies of the Postal Ballot Notice has been dispensed with.

As required under Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of the Central Depository Services Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility to all the members of the Company. The Company has appointed, Mr. Arun Kumar Gupta, Practicing Company Secretary, (M No. A21227 and CP No. 8003) M/s Arun Gupta & Associates as the Scrutinizer for conducting the process of remote e-voting, in a fair and transparent manner.

The communication of the assent or dissent of the members would take place through the process of remote e-voting only. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-Off date shall treat the notice for information purposes only. The remote e-voting period will commence at 10.00 A.M. (IST) on Thursday, 15th February 2024 and will end at 5.00 P.M. (IST) on Friday, 15th March 2024. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed after said date and time. The members are, therefore, advised to exercise their vote well in advance.

Detailed procedure for remote e-voting is provided in the said Notice. In case of any queries/issues, you may refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") or shareholders are requested to contact at CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or toll free no. 1800 22 55 33 or can contact Mr. Lalit Kumar Sharma, Senior Vice President and Company Secretary at Investor Service Division, 7, Sham Nath Marg, Delhi - 110054, phone: 011-23890505, E-mail: isdho@oberoigroup.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013.

In accordance with the MCA Circulars, the Company has made necessary arrangements for the members to register their e-mail address. (i) Member who have not registered their email address are requested to register the same with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in electronic form, and (ii) members holding shares in physical mode, who have not registered updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at www.eihltd.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to RTA viz. Link Intime India Pvt. Ltd., at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

The result of the postal ballot vote / remote e-voting will be declared within timeline prescribed under the Law. The result along with the Scrutinizer Report shall be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company at N-806-A, 8th Floor, Diamond Heritage Building, 16, Strand Road, Fairley Place, Kolkata - 700001, West Bengal and shall also be placed on the Company's website <https://www.eihltd.com/investors/disclosure/> and communicated

Ladam Affordable Housing Ltd.

Regd Office: Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604.
Tel No. 022 71191000 Email ID: compliances@ladam.in
Website: www.ladamaffordablehousing.com
CIN NO.: L65990MH1979PLC021923
[Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended on December 31, 2023

| Sr No. | Particulars | Standalone | | | Consolidated | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | For the quarter ended 31/12/2023 (Un-Audited) | For the Nine month ended 31/12/2023 (Un-Audited) | Corresponding quarter ended 31/12/2022 (Un-Audited) | For the quarter ended 31/12/2023 (Un-Audited) | For the Nine month ended 31/12/2023 (Un-Audited) | Corresponding quarter ended 31/12/2022 (Un-Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 2,974 | 10,995 | 2,410 | 3,863 | 13,251 | 6,150 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | -1,225 | -5,700 | -3,370 | -0,415 | -3,667 | -0,610 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | -1,225 | -5,700 | -3,370 | -0,415 | -3,667 | -0,610 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | -1,225 | -5,700 | -3,370 | -0,415 | -3,667 | -0,610 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | -1,089 | -5,451 | -2,890 | -0,279 | -3,401 | -0,130 |
| 6 | Equity Share Capital | 915,230 | 915,230 | 915,230 | 915,230 | 915,230 | 915,230 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | | | | | | |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic : Diluted : | -0,007 -0,007 | -0,031 -0,031 | -0,018 -0,018 | -0,004 -0,004 | -0,019 -0,019 | -0,019 -0,019 |

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) website www.bseindia.com and on the Company's website www.ladamaffordablehousing.com
b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable For Ladam Affordable Housing Limited.
SD/-
Sumesh Agarwal
Chairman & Director
DIN: 00325063

Date: February 13, 2024

Place: Thane

**RANA SUGARS LIMITED**

Registered Office: SCO 49-50, Sector 8-C, Madhya Marg, Chandigarh - 160009
Telephone: (0172) 2540007, 2549217, 2541904, 2779565, Email: info@ranagroup.com
Website: www.ranasugars.com

| CIN: L15322CH1991PLC011537 | | (Rs. in Lakhs) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|--|
| Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended December 31, 2023 | | | | | | |
| PARTICULARS | 3 Months ended | | 9 Months ended | | Year ended | |
| | 31.12.2023 (Unaudited) | 31.12.2022 (Unaudited) | 31.12.2023 (Unaudited) | 31.03.2023 (Unaudited) | | |
| 1. Total Income from Operations (Net) | 33,715.64 | 37,044.71 | 117,723.23 | 117,585.82 | 162,748.23 | |
| 2. Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items) | 746.38 | 1,413.03 | 1,522.13 | 3,476.04 | 8,247.64 | |
| 3. Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items) | 746.38 | 1,413.03 | 1,522.13 | 3,476.04 | 8,247.64 | |
| 4. Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items) | 550.12 | 156.97 | 626.90 | 1,803.65 | 6,339.61 | |
| 5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 550.12 | 156.97 | 626.90 | 1,803.65 | 6,342.16 | |
| 6. Equity Share Capital | 15,353.95 | 15,353.95 | 15,353.95 | 15,353.95 | 15,353.95 | |
| 7. Other Equity | - | - | - | - | 35,886.73 | |
| 8. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - Before Exceptional Items | 0.36 | 0.10 | 0.41 | 1.17 | 4.13 | |
| - Basic | 0.36 | 0.10 | 0.41 | 1.17 | 4.13 | |
| - Diluted | 0.36 | 0.10 | 0.41 | 1.17 | 4.13 | |
| 9. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - After Exceptional Items | 0.36 | 0.10 | 0.41 | 1.17 | 4.13 | |
| - Basic | 0.36 | 0.10 | 0.41 | 1.17 | 4.13 | |
| - Diluted | 0.36 | 0.10 | 0.41 | 1.17 | 4.13 | |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Audited Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as at Company's website www.ranasugars.com.

For Rana Sugars Limited

Sd/-

Rana Inder Pratap Singh

Managing Director

DIN: 00075107

Place: Chandigarh
Date: 14.02.2024**GANESHA ECOSPHERE LIMITED**

CIN: L51109UP1987PLC009090
Regd. Office: Raipur (Rania), Kalpi Road, Distt. Kanpur Dehat - 209304 (U.P.)
E-mail: secretarial@ganeshaecosphere.com, Website: www.ganeshaecosphere.com
Tel. No.: 0512-2555505-06, +91 9198708383, Fax No.: 0512-2555293

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023

| Sl. No. | Particulars | (₹ in Lakh) | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited) | Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited) |
| 1. | Total Income from Operations | 28,482.60 | 81,739.50 | 27,255.78 |
| 2. | Net Profit for the period before tax | 1,898.62 | 2,831.28 | 2,825.47 |
| 3. | Net Profit for the period after tax ^ | 1,272.99 | 1,897.61 | 2,111.05 |
| 4. | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 1,283.18 | 1,928.13 | 2,111.81 |
| 5. | Equity Share Capital | 2,182.94 | 2,182.94 | 2,182.94 |
| 6. | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year) | - | - | - |
| 7. | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) - Basic - Diluted *Not annualised | 5.84*# 5.84*# | 8.71*# 8.71*# | 9.69* 9.69* |

^ The Group does not have any Exceptional and Extraordinary item to report for the above periods.
Pursuant to the Ganesh Ecosphere Employees' Stock Option Scheme, 2021, Ganesh Ecosphere Employees' Welfare Trust is holding 39,194 equity shares of Parent Company, which have been reduced while computing basic and diluted earnings per share.

Notes:

1. Additional information on standalone financial results is as follows: (₹ in Lakh)

| Particulars | Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited) | Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited) |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Revenue from Operations | 24,575.46 | 73,817.23 | 27,072.71 |
| Profit before Tax | 2,602.27 | 5,570.54 | 2,806.57 |
| Profit after Tax | 1,954.70 | 4,155.23 | 2,093.36 |

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at <https://ganeshaecosphere.com/quarterly-results>.

For GANESHA ECOSPHERE LIMITED
Sd/-

(Shyam Sunder Sharmma)

Chairman

DIN:00530921



Place: Kanpur
Date: 14.02.2024**BRAWN BIOTECH LIMITED**

CIN:L74899DL1985PLC022468
Regd. Office: C-64, Lajpat Nagar-1, New Delhi 110024
Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31st December 2023
(Rs. in Lacs)

| Sl. No. | Particulars | Standalone | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Quarter Ended | | Nine Months ended | | Year Ended | |
| | | 31.12.2023 (Unaudited) | 30.09.2023 (Unaudited) | 31.12.2022 (Unaudited) | 31.12.2022 (Unaudited) | 31.03.2023 (Unaudited) | 31.03.2023 (Audited) |
| 1 | Total income from operation | 284.66 | 291.87 | 630.89 | 1,304.82 | 1,747.80 | 2,223.06 |
| 2 | Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax | -60.74 | -42.27 | -3.72 | -120.24 | -26.02 | -86.81 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after extraordinary items) | -60.74 | -42.27 | -3.72 | -120.24 | -26.02 | -86.81 |
| 4 | Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income) | -60.57 | -42.80 | -5.49 | -120.66 | -30.08 | -91.11 |
| 5 | Equity Share Capital | 300.03 | 300.03 | 300.03 | 300.03 | 300.03 | 300.03 |
| 6 | Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the balance sheet of previous year) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Earning per share (before extraordinary items) (not annualised): (of Rs.10/- each) | | | | | | |
| | (a) Basic (Rs.) | -2.02 | -1.43 | -0.18 | -4.02 | -1.00 | -3.04 |
| | (b) Diluted (Rs.) | -2.02 | -1.43 | -0.18 | -4.02 | -1.00 | -3.04 |
| 8 | Earning per share (after extraordinary items) (not annualised): (of Rs.10/- each) | | | | | | |
| | (a) Basic (Rs.) | -2.02 | -1.43 | -0.18 | -4.02 | -1.00 | -3.04 |
| | (b) Diluted (Rs.) | -2.02 | -1.43 | -0.18 | -4.02 | -1.00 | -3.04 |

NOTES:The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Audited Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as at Company's website www.brawnbiotech.com.

2 कंपनी समाचार



संक्षेप में

अदाणी ग्रीन ने शुरू की 551 मेगावॉट सौर क्षमता

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने गुजरात के खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा (आई) पार्क में 551 मेगावॉट सौर क्षमता शुरू करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि पूरा होने पर खावड़ा आई पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठान होगा।

इंडिगो ने किया बीओसी एविएशन के साथ करार

बीओसी एविएशन लिमिटेड और इंडरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) ने एक पट्टा समझौते किया है। पार एयरलायन्स ए320एएईओ विमानों के लिए यह समझौता किया गया है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री बढ़ी
पिछले साल के मुकाबले जनवरी महीने में वाहन बिक्री 14 फीसदी बढ़कर 3,93,074 हुई

सोनिनी दास मुंबई, 14 फरवरी
जनवरी में यात्री वाहन (पीवी) की थोक बिक्री पिछले साल की तुलना में 14 फीसदी बढ़कर 3,93,074 वाहनों की रही। यह किसी भी जनवरी महीने में सर्वाधिक है। जनवरी महीने में यात्री वाहनों की थोक अब खुदरा बिक्री एक ही स्तर पर रही।



बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

ये पहिया और यात्री वाहन खंड में खुदरा और थोक बिक्री ने अपनी पकड़ बनाई
जनवरी में तीन पहिया वाहनों की खुदरा बिक्री ने थोक बिक्री को पीछे छोड़ा

रॉनी स्क्रूवाला ने कहा

'बैजूस की हालत के लिए रवींद्रन और निवेशक जिम्मेदार'

अर्जुन गुप्ता नई दिल्ली, 14 फरवरी
एडटेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड के कार्यकारी चेयरमैन और सह-स्थापक रॉनी स्क्रूवाला ने कहा है कि बैजूस की मौजूदा दुर्दशा के लिए उसके निवेशक कार्यवाहकों और सह-स्थापक बैजू रवींद्रन और इसके 51 निवेशक जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा 'चार अरब डॉलर में 10 करोड़ का निवेश करने के बाद कोई भी सवाल पूछना क्यों बंद करेगा? आपको ऐसा करना चाहिए।'

सेबी ने निवेशकों को आगाह किया

नकली धन प्रबंधकों द्वारा ठगे जा रहे लोगों को आगाह करते हुए बाजार नियामक ने निवेशकों को ऐसी 'अवैध इकाइयों' से आगाह किया है जो जो जीकृत होने का दावा करती हैं और अधिक रिटर्न का वादा करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने दी सलाह

स्टरलाइट कॉपर के लिए विशेषज्ञ समिति का सुझाव

बीएस संवाददाता चेन्नई, 14 फरवरी
अप्रत्यापित कारोबारी रिपोर्ट अलग-अलग नई स्टरलाइट कॉपर की नया जीवन देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव किया।

एमएंडएम का लाभ 34 फीसदी बढ़ा

बीएस संवाददाता और भाषा मुंबई/नई दिल्ली 14 फरवरी
वाहन, रिसेल एस्टेट, आईटी, आतिथ्य, वित्त आदि क्षेत्रों में मौजूद महिंद्रा ग्रुप (एमएंडएम) समूह का वित्त वर्ष 2023-24 की हिस्सेदारी (तीसरी तिमाही) का समेकित शुद्ध लाभ एक साल पहले की सीमा बिक्री की तुलना में 34 फीसदी बढ़कर 2,658 करोड़ रुपये हो गया।

SBBI
जीएसटी सेवा, एकाइन बैंक से वित्त, भारतीय स्टेट बैंक, कॉमोडिटी केंद्र, बीबीसी मॉड्यूल, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ईएनई-400021

सर्वजनिक सुचना
आज जनता को पारदर्शक सुचना मिलना है कि, हमारे क्लाइंट मेरेस प्रुफ्ट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा 19* & 21* February 2024 को (बैंक अनुपूर्णी सी-एनपीएर खाती) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी शुरू करार होगी...

कोरौली एण्ड सोबी, एडवोकेट
59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली - 110024

सर्वजनिक सुचना
आज जनता को पारदर्शक सुचना मिलना है कि, हमारे क्लाइंट मेरेस प्रुफ्ट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा 20* February 2024 को (बैंक अनुपूर्णी सी-एनपीएर खाती) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी शुरू करार होगी...

कोरौली एण्ड सोबी, एडवोकेट
59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली - 110024

सर्वजनिक सुचना
आज जनता को पारदर्शक सुचना मिलना है कि, हमारे क्लाइंट मेरेस प्रुफ्ट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा 24* February 2024 को (बैंक अनुपूर्णी सी-एनपीएर खाती) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी शुरू करार होगी...

कोरौली एण्ड सोबी, एडवोकेट
59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली - 110024

सर्वजनिक सुचना
आज जनता को पारदर्शक सुचना मिलना है कि, हमारे क्लाइंट मेरेस प्रुफ्ट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा 24* February 2024 को (बैंक अनुपूर्णी सी-एनपीएर खाती) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी शुरू करार होगी...

कोरौली एण्ड सोबी, एडवोकेट
59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली - 110024

NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION
E-TENDER NOTICE 2nd Galt
Commissioner, MMC invites e-tenders for the following work. The details of e-tender can be downloaded from e-tendering portal (www.mahatelenders.gov.in).

राना ग्रुप्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एमएनसी 40-60, सेक्टर 8-वी, मुंबय गांधी, चंडीगढ़-160006
राणा ग्रुप्स लिमिटेड
वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ बढ़कर 213 करोड़ रुपये हुआ

वित्तीय परिणाम
वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ बढ़कर 213 करोड़ रुपये हुआ
वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ बढ़कर 213 करोड़ रुपये हुआ

पेटेयम बैंक में फेमा का भी पेच, ईडी ने शुरु की जांच

पृष्ठ 1 का शेष
इस बीच एक्सचेंज को दी सूचना में पेटोएम ने कहा कि उसने ईडी समेत अधिकारियों से मिलने-मिलने का जवाब दे दिया है। उसने कहा कि इसमें कंपनी के कारोबार के कुछ हिस्से में जांच की जा रही है और कागजात तथा सफाई की मांग गई है।

भारत में 30% कारोबार क्लाइड पर राधा

अभी केवल 30 फीसदी को क्लाइड पर ले जाया गया है। हालांकि यह एक वैश्विक अंकड़ा है, जो भारत के लिए भी उतना ही होगा। उन्होंने कहा कि आज बीएसएनएल, दुर्गाचर, रिटेल, राज्य एएसएनबी आदि क्षेत्रों में हर शाका क्लाइड की चर्चा कर रहा है। कुमार ने मुंबई में अरिक्ल क्लाइड डेवलपर्स मीटिंग में कहा, अरिक्ल ने भारत में बीटी क्लाइड तिमाहीय इंडिया के समूह उपाध्यक्ष श्रीनंद शिंदे की अध्यक्षता में एक साल पहले के मुकाबले 50 फीसदी की वृद्धि हासिल की है।